



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 1, 2007/आश्विन 9, 1929

No. 197]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2007/ASVINA 9, 1929

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2007

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY
COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2007

सं. एल-7/25(7)2004-विधिक.—1-4-2004 से आयोग द्वारा टैरिफ का अंतिम अवधारण लॉबित रहने तक, तारीख 30-4-2004 की अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार आयोग ने केंद्रीय ऊर्जा सेक्टर उपयोगिताओं द्वारा प्रभारों की बिलिंग की रीति विनिर्दिष्ट की थी। तारीख 30-4-2004 की उक्त सूचना, जो आरंभिक रूप से 30-9-2004 तक विधिमान्य है, तारीख 16-3-2007 को भारत के राजपत्र, (असाधारण), भाग III, खंड 4 में प्रकाशित तारीख 16-3-2007 की अधिसूचना के अनुसार, कुछ कतिपय उपांतरणों के साथ, इस समय 30-9-2007 तक विस्तारित है।

2. यह घोषणा की जाती है कि ऐसे उत्पादन केन्द्रों और पारेषण आस्तियों के संबंध में, जिनके लिए 2004—2009 की टैरिफ अवधि हेतु अंतिम टैरिफ आदेश अभी जारी नहीं किए गए हैं, प्रभारों की अनंतिम बिलिंग संबंधी समय-समय पर यथा उपांतरित तारीख 30-4-2004 की उक्त अधिसूचना, 31-3-2008 की और अवधि के लिए या टैरिफ के अनुमोदन के लिए उपयोगिताओं द्वारा किए गए आवेदनों का निपटान किए जाने तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी।

3. अनंतिम बिलिंग पर आधारित टैरिफ प्रभार आयोग द्वारा टैरिफ के अंतिम अवधारण के पश्चात समायोजन के अधीन रहते हुए होगा।

के. एस. ढींगरा, प्रमुख (विधिक)

[विज्ञापन III/TV/150/2007/असा.]

No. L-7/25(7)/2004-Legal.—In terms of the notification dated 30-4-2004, the Commission had specified the manner of billing of charges by the Central Power Sector Utilities, pending final determination of tariff by the Commission with effect from 1-4-2004. The said notification dated 30-4-2004, initially valid upto 30-9-2004, presently stands extended up to 30-9-2007, with certain modifications, in accordance with the notification dated 16-3-2007, published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III, Section 4, dated 16-3-2007.

2. It is hereby directed that in respect of the generating stations and the transmission assets for which final tariff orders for the tariff period 2004—2009 are not yet issued, the said notification dated 30-4-2004, as modified from time to time on provisional billing of charges shall be continued for a further period up to 31-3-2008 or till disposal of the applications made by the utilities for approval of tariff, whichever is earlier.

3. The tariff charges based on provisional billing shall be subject to adjustment after final determination of tariff by the Commission.

K. S. DINGHRA, Chief (Legal)

[ADVT-III/TV/150/2007/Ext.]